

कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए अन्य शुल्क

क्रमांक	शुल्क/फीस का स्वरूप	शुल्क/फीस विवरण
1	प्रसंस्करण शुल्क	सुविधा राशि का अधिकतम 2%
2	प्रस्ताव लॉगिन शुल्क (वापसी योग्य नहीं)	विवरण उपलब्ध नहीं हैं
3	नवीनीकरण/समीक्षा शुल्क - मौजूदा मामलों के लिए	सुविधा राशि का अधिकतम 1%
4	प्रतिबद्धता शुल्क - यदि तिमाही में सीसीओडी खाते का औसत उपयोग 60% से कम है	वास्तविक उपयोग और 60% के औसत उपयोग के बीच के अंतर पर तिमाही के लिए प्रति वर्ष 0.5%
5	अधिग्रहण/पूर्व-बंद शुल्क (पूर्ण पूर्व-बंद)	<u>कार्यशील पूंजी</u> : स्वीकृत राशि का अधिकतम 5% <u>सावधि ऋण</u> : बकाया मूलधन का अधिकतम 5%
6	सावधि ऋण: आंशिक पूर्व-बंद	अग्रिम भुगतान की गई मूल राशि पर अधिकतम 5%
7	अवधि पार ओवरड्राफ्ट/सीसी खाता में ओवरलाइन शुल्क (अतिरिक्त निकाली गई राशि)	अवधि पार राशि पर तिथि से तिथि तक अधिकतम 24% वार्षिक ब्याज, सीमा नियमितीकरण की तिथि तक।
8	समय सीमा समाप्त अस्थायी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) पर दंडात्मक शुल्क	उपयोग की गई सीमा पर अधिकतम 24% वार्षिक ब्याज, सीमा नियमित होने तक।
9	सावधि ऋण पर दंडात्मक शुल्क	देय किस्त का भुगतान न करने पर, बकाया राशि नियमित होने तक अधिकतम 36% वार्षिक ब्याज।
10	स्वीकृत अस्थायी ओवरड्राफ्ट (टीओडी) और अस्थायी सीमा पर वृद्धिशील ब्याज	सुविधा नियमित होने तक स्वीकृत टीओडी और अस्थायी सीमा उपयोग पर अधिकतम 2% वार्षिक ब्याज।
11	ऋण परिवर्तन शुल्क (नियत दर से परिवर्तनीय दर या इसके विपरीत)	<u>सावधि ऋण</u> : एकमुश्त शुल्क, बकाया मूलधन के 0.25% या ₹5000/- में से जो भी अधिक हो। <u>कार्यशील पूंजी</u> : दस्तावेज जमा न करने/ अनुबंध का पालन न करने आदि के लिए दंडात्मक शुल्क
12	<u>कार्यशील पूंजी</u> : दस्तावेज जमा न करने पर पेनाल्टी लगेगी, इनमें शामिल हैं: स्टॉक विवरण जमा न करना/एग्रीमेंट का पालन न करना/ रिन्यूअल के डॉक्यूमेंट जमा न करना/प्रॉपर्टी या स्टॉक इंश्योरेंस जमा न करना	शर्तों का पालन होने तक बकाया मूलधन पर अधिकतम 24% वार्षिक ब्याज।
13	<u>सावधि ऋण</u> : दस्तावेज जमा न करने/ अनुबंध का पालन न करने आदि के लिए दंडात्मक शुल्क	उपयोग की गई सीमा पर नियमित होने तक अधिकतम 24% वार्षिक ब्याज।

14	एलसी-उसान्स कमीशन	पहले 3 महीने के लिए उपयोगी एलसी पर अधिकतम 1.5% सालाना ब्याज न्यूनतम ₹2000/- का 3 महीने से ज्यादा लेकिन 6 महीने के अंदर एलसी उपयोग अवधि के लिए अतिरिक्त 1.5% सालाना ब्याज न्यूनतम ₹2000/- का
15	एलसी-साईट कमीशन	एलसी मूल्य पर अधिकतम 1% वार्षिक ब्याज और न्यूनतम ₹1500/- का कमीशन।
16	एलसी पाठ संशोधन शुल्क	प्रति संशोधन ₹750/- का शुल्क।
17	एलसी मूल्य और अवधि संशोधन शुल्क	एलसी जारी करने के शुल्क और उपरोक्त संशोधन शुल्क के योग के बराबर।
18	एलसी बिल प्रबंधन शुल्क	प्रति बिल ₹750/- का शुल्क।
19	एलसी बिल स्वीकृति शुल्क	प्रति बिल ₹750/- का शुल्क।
20	विसंगति शुल्क (अलग से वर्णित)।	प्रति बिल ₹750/- का शुल्क।
21	स्टांप शुल्क	वास्तविक (सरकारी द्वारा तय)
22	एसएफएमएस शुल्क	वास्तविक (सरकारी द्वारा तय)
23	एलसी रद्दीकरण शुल्क	₹1000/-
24	एलसी भुगतान कमीशन	0.75% वार्षिक ब्याज
25	एलसी देय भुगतान	90 दिनों तक 20% 90 दिनों से अधिक 24%
26	प्रदर्शन गारंटी के लिए बैंक गारंटी जारी करना	बीजी राशि पर 1.5% वार्षिक ब्याज, न्यूनतम रु. 1500/-
27	वित्तीय गारंटी के लिए बैंक गारंटी जारी करना	बीजी राशि पर 2.0% वार्षिक ब्याज, न्यूनतम रु. 2000/-
28	बीजी जारी करने हेतु प्रबंधन शुल्क (कूरियर शुल्क अलग से)	रु. 200/- (कूरियर शुल्क अलग से)
29	पाठ संशोधन शुल्क	प्रति संशोधन ₹500/- का शुल्क।
30	अवधि या मूल्य वृद्धि के लिए	बीजी जारी करने के शुल्क के समान होगा
31	बीजी दावा प्रबंधन शुल्क	प्रति दावा रु. 500/-
32	बीजी रद्दीकरण शुल्क	₹1000/-
33	आरओसी फाइलिंग शुल्क	वास्तविक लागत
34	सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र जारी करना	सॉल्वेंसी प्रमाणपत्र मूल्य का 0.5%, (न्यूनतम रु. 1000/- और अधिकतम रु. 10000/-)
35	बीजी लागू करना	90 दिनों तक 20% 90 दिनों से अधिक 24%

36	सीईआरएसएआई शुल्क (स्टॉक/प्राप्य/ संयंत्र और मशीनरी और संपाशिवक सुरक्षा)	₹100/-
37	स्टॉक और प्राप्य लेखा परीक्षा - बाह्य	महानगर स्थानों के लिए रु. 10000/- अन्य क्षेत्रों के लिए रु. 6000/-
38	क्रेडिट शील्ड बीमा	वास्तविक लागत
39	स्टॉक बीमा	वास्तविक लागत
40	संपत्ति बीमा	वास्तविक लागत

उपरोक्त सभी शुल्कों में जीएसटी और अन्य सरकारी कर शामिल नहीं हैं, जो समय-समय पर बदल सकते हैं।

ये शुल्क 01 अप्रैल 2024 से मौजूदा ग्राहकों के लिए और 01 जून 2024 से नए ग्राहकों के लिए लागू हैं।